



EMA INDIA LIMITED

CIN:L27201UP1971PLC003409

Mfrs. of Induction
Heating and Honing
Machines & Accessories

30 May, 2025

To,
Manager-CRD,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir / Ma'am,

**Sub: Copy of Advertisement published in Newspaper- Standalone Audited Financial Results
for the Quarter and Year ended 31st March, 2025.**

Re: EMA India Limited; Scrip Code: 522027

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith the copies of advertisement published in 'Financial Express' English Edition and 'Rashtriya Sahara' Hindi Edition on 30th May, 2025 for Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully

For EMA India Limited

NAMITA
SABHARWAL

Digitally signed by
NAMITA SABHARWAL
Date: 2025.05.30
08:48:07 +05'30'

(Namita Sabharwal)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no.- A35411

Encl: As above

Regd. Office &
Postal Address
EMA INDIA LTD.
C-37, Panki Industrial Area
P.O. Udyog Nagar
Kanpur-208 022
INDIA

Honing Machine
Division
GEHRING INDIA
(A Div. of Ema India Ltd.)
Vill. Maharajpur, 19th Km. Stone
P.O. Tantiyaganj, Mandhana
Kanpur Dehat-209 203
INDIA

EMA Tel. : +91-512-691210-11-12-13
Fax : +91-512-691214
GEHRING Tel. : +91-5112-20105, 20107
Fax : +91-5112-20106
E-mail : emain@lw1.vsnl.net.in

ISF LIMITED

Registered office: Khasara No. 10/2, Samalka Gurgaon Road, South West Delhi-110037

CIN No. : L74899DL1988PLC076648

Email ID: vishal@isflimited.in Tel: 9105553135

PUBLIC NOTICE

In compliance with the Para 5 of Notification No. DNBS. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued by Reserve Bank of India on July 09, 2015. Notice is hereby given to the shareholders of ISF LIMITED, a company incorporated under the companies Act, 1956 and Registered with Reserve Bank of India vide Certificate Number B-14.00761 as a Non Deposit taking Non-Banking Investment Credit. Company, with its Registered office situated at Khasara No. 10/2, Samalka Gurgaon Road, South West Delhi-110037, India is going to appoint Mr. Anil Kumar Verma Director on the Board of ISF LIMITED and approval for the same received from the Reserve Bank of India (RBI) vide Letter No. vide letter no.वि.वि. (नं.वि.) S104 /एनबीएफसी-बीएल/24.03.045/2025-26 dated 28th May, 2025.

Any clarification / Objection in this regard may be addressed to Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, Delhi 110001 within 30 days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and grounds of objection. This public Notice is being issued jointly by the Company and the above-mentioned Acquirers.

By Order of the Board

ISF Limited

Sd/-

Vishal Dang

Director

Place : Delhi

Date : 29.05.2025

DIN: 07971525

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN

Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)

2nd Floor, Paras Tower, Mazra, Saharanpur Road, Dehradun, UK. 248171

PUBLICATION NOTICE

IN O.A. No. 580 OF 2024

SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB-RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS AMENDED FROM TIME TO TIME)

Dy. No. 485/2025

Dated: 26.05.2025

Bank Of Baroda V/s Late Subhash Chandra Sharma & Ors.

To,

1. Late Subhash Chandra Sharma through its known Legal Heirs- A). Mrs. Shanti Devi W/o Late Subhash Chandra Sharma R/o Village Dhruvpur, Post-Padampur Sukhro, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal-246149.

B). Mr. Basant Kumar Sharma S/o Late Subhash Chandra Sharma R/o Village Dhruvpur, Post- Padampur Sukhro, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal-246149.

2. (B) Mr. Harish Kumar S/o Late Subhash Chandra Sharma R/o Village Dhruvpur, Post-Padampur Sukhro, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal-246149. (Legal Heir of Defendant No. 1/Defendant No.2)

3. Mr. Pramod Kumar S/o Sh. Hori Singh R/o 165, Simalchaur, Padampur Sukhro, Kotdwar, Pauri Garhwal-246149.

4. Mrs. Laxmi Bharti W/o Sh. Om Prakash Bharti R/o Village 101, Simalchaur, Padampur Sukhro, Kotdwar, Distt. Pauri Garhwal-246149

Whereas the above named Applicant Bank has instituted OA No. 580 of 2024 against you for recovery of debts of Rs. 26,32,161.24/- in which Hon'ble Tribunal was pleased to issue Summons/Notice U/s 19(4) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 and was listed before the Hon'ble Presiding Officer on 22.05.2025.

Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly authorized agent or legal practitioner before the Tribunal on 30.07.2025 at 10:30 A.M. Further, you are required to show cause as to why the relief(s) prayed for in OA should not be granted and to file reply, if any, in your defence in a paper book form in sets and produce all the documents and affidavits under which your defence or claim for set off, counter claim, in this Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner within 30 days from the date of the publication of this notice.

Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time before the Tribunal, the case shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 26th day of May, 2025.

By order of Tribunal,

Registrar

Debts Recovery Tribunal, Dehradun

AUTHUM AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Off.: 707, Raheja Centre, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai-21 Ph.: (022) 6747 2117 Fax: (022) 6747 2118 E-mail: info@authum.com

Branch Off.: Office No-1216-1220, 12th Floor, Naurang House, Plot No-21, Kasturba Gandhi Road, Connaught Place, New Delhi-110001

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Authum Investment & Infrastructure Limited ("AIL") (Resulting Company pursuant to the demerger of lending business from Reliance Commercial Finance Limited ("RCFL") to AIL vide NCLT order dated 10.05.2024), under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 18th January 2025 calling upon the Borrower Umed Singh Rana and Co-Borrower SUSHMA RANA to repay the amount mentioned in the notices being Rs. 21,45,684/- (Rupees Twenty One Lakh Forty Five Thousand Six Hundred Eighty Four Only) under Loan Account Nos. RLLADEH00318137 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the demanded amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ here under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 26th Day of May-2025.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the Property and any dealings with the property will be subject to the charge of Reliance Commercial Finance Limited for an amount of Rs. 22,23,765/- (Rupees Twenty Two Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred Sixty Five Only) as on 10th-April-2025 with future interest and cost thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE MORTGAGE PROPERTY

All that piece and parcel of Shop forming of land bearing Khata No. 278 (Fasli Year 1416 to 1421) Ground Khassara No. 82 D, Area Measuring 14.80 sq. mtrs, totally covered without Roof right situated at Mauza Majri Mafi, Pargana Panwaddon, Distt.- Dehradun, Uttarakhand - 248001 which is bounded as under- East: 30 ft. wide road, side measuring 8 ft. 10 inch; West- Property of Shri Raja Rama Gupta; North- Property of Shri Anand Songh Negi; South- Property of Shri Gukul Chand.

Date: 26-05-2025

Authorized Officer

Place: Dehradun

Authum Investment and Infrastructure Limited

SALE NOTICE

This Sale notice is published by Resolution Professional: Mr. Anil Kumar Sharma appointed in the matter of Born Unicorn Tech Prise Pvt. Ltd. (Under CIRP)

C/o AAA Insolvency Professionals LLP

Address: First Floor, 64, Okhla Phase-III, Behind Model Flour Mills, New Delhi- 110020

Email: bornunicorn.cirp@gmail.com. Contact Person: Mr. Wasim (+91-8800865284)

Bids are invited for Sale of Inventories under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Bid Submission Due Date: 09.06.2025 by 06:00 PM.

Bids to be submitted through a password protected PDF file to bornunicorn.cirp@gmail.com (The hardcopy may (not mandatory) be submitted at the address of the Resolution Professional mentioned above in a sealed envelope, the bidders submitting the bid must state on the envelope and in the subject line of the email "Bid due date: 09.06.2025" and "Inventory Sale Bid - Born Unicorn Tech Prise Pvt Ltd")

Sale of Inventories comprise multi-brand cosmetics, personal care items owned by Born Unicorn Tech Prise Pvt. Ltd., a company that is currently under Corporate Insolvency Process initiated by an order dated 10.01.2025 of Hon'ble NCLT-IV, appointing Mr. Anil Kumar Sharma bearing Reg. No. IBB/PA-003/PA-ICAI-N-00218/2019-2020/12514 as the Interim Resolution Professional later confirmed as a Resolution Professional in this matter. Interested bidders may submit their bids latest by 06:00 PM. on 09.06.2025 at the address above or through an email to bornunicorn.cirp@gmail.com.

Particulars of Asset	Lot	Reserve Price (In Rs.)	EMD Amount (In Rs.)
List of Inventory - (downloadable as Inventory list from https://www.combination.in or obtained via an email from bornunicorn.cirp@gmail.com)	One	22,50,000/- (Rupees Twenty two lacs and fifty thousand only)	2,00,000/- (Rupees Two lacs only)

Important Notices

Sale Notice is also published on Corporate Debtor's Website at: https://www.combination.in. The terms and conditions of Sale, bid process document, bid submission form are to be downloaded from the website. Bids must be submitted with EMD. The Resolution Professional can be contacted through an email to bornunicorn.cirp@gmail.com clarification.

Mr. Anil Kumar Sharma

IBBI/PA-003/PA-ICAI-N-00218/2019-2020/12514

Resolution Professional

In the matter of Born Unicorn Tech Prise Pvt. Ltd.

Date: 23.05.2025

Place: Delhi

S. E. RAILWAY – TENDER

Tender Notice No.: PCMM/GENL/TP/2025/19, Dated : 29.05.2025, TENDER FOR "E" PROCUREMENT SYSTEM, The Principal Chief Materials Manager, South Eastern Railway, Hd. Qrs. Office (5th Floor), New Administrative Building, 11, Garden Reach Road, Kolkata-700043 for and on behalf of the President of India invites open E-tenders which have been uploaded on website www.irops.gov.in as follows. All the tenders will be closed at 14.00 hrs. SI No., Tender No., Due Date, Brief Description, Quantity & EMD are as follows: 1. 56251688, 01.07.25, Red aspect main LED signal lighting unit, 752 Nos. ₹ 1,33,190/-, 2. 65245066A, 24.06.25, 50 Ton Eot Crane, 01 No. ₹ 2,63,090/-, 3. IG2551210A, 23.06.25, Digital Radiography System etc. 01 No., ₹ 1,70,000/-, 4. IG255892, 24.06.25 Supply of Indoor type Distribution Transformer of capacity 500 KVA, 6KV/433V, 04 Nos. ₹ 1,74,640/-, 5. 30251434, 18.06.25, Kit for Brake gear Bushes for BMBC coach, 1380 Set, ₹ 2,51,910/-, 6. 31251481, 20.06.25, Nonasbestos Based "K" Type etc., 56888 Nos. ₹ 3,53,090/-, 7. 47253113, 08.07.25, Microprocessor Controller of Roof Mounted AC Package Unit For LHB Coaches, 143 Nos. ₹ 3,20,210/-, 8. 45253192, 18.06.25, Maintenance free Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery of 1100 Ah etc., 60 Set, ₹ 17,83,570/-, 9. 45253185, 25.06.25, Low Maintenance Lead Acid Battery for Diesel Electric Loco Engine Starting application, 8V, 500AH etc., 595 Nos. ₹ 8,75,610/-, 10. 45251679, 25.06.25, Low Maintenance Lead Acid Battery 8V 450 AH Capacity for LHB Power Car/Diesel loco Starting etc. 411 Nos., ₹ 5,54,490/-, 11. 45251681, 27.06.25 Low Maintenance Lead Acid Batteries, 75 AH capacity for electric Locomotive etc., 88 Set, ₹ 2,90,530/-, 12. 45253133, 08.07.25 4.5KW Underslung Constant Voltage Regulated Cum Emergency Battery Charger For LHB Coaches etc. 102 Nos. ₹ 5,65,690/-, 13. 40251590, 18.06.25 Thin Walled Electronic Beam Irradiated/Chemically Cured Cross Linked Thin Walled Flexible Elastomeric Cables with Copper Conductors etc. 9000 Mr. ₹ 5,60,740/-, 14. 40251589, 18.06.25, Thin Walled Electronic Beam Irradiated/Chemically Cured Cross Linked Thin Walled Flexible Elastomeric Cables with Copper Conductors etc. 12024 Mr. ₹ 9,27,060/-, 15. IF255478, 26.06.25, New Doorway Stiffening Cross Bar etc., 7200 Nos. ₹ 4,77,350/-, 16. 33253072, 30.06.25, Flexible Hose (500mm) for Brake etc., 5559 Nos., ₹ 1,35,000/-, 17. 33255013, 20.06.25, Kit for Junction Box Assembly etc. 30 Set, ₹ 1,16,320/-, 18. 33253262, 25.06.25, Emergency Brake Accelerator EB3 etc, 110 Nos., ₹ 1,42,260/-, 19. 25251213, 18.06.25, Independent Brake Valve SA9, 206 Nos., ₹ 1,31,260/-, 20. 29253312, 18.06.25, Set of kit for EP Relay valve, 650 Set, ₹ 6,57,560/-, 21. 25255002A, 18.06.25, Supply, Installation and commissioning of Static Inverter, 42 Nos., ₹ 20,00,000/-, 22. 29253785, 19.06.25, Overhauling kit for valve of Aux Panel of KBIPL, 86 Set, ₹ 4,04,800/-, 23. 29255030, 23.06.25, 3-Phase Asynchronous Traction Motor, 04 Nos., ₹ 1,36,720/-, 24. 29253019, 23.06.25, Kit for E-70 Brake Control Unit, 163 Set, ₹ 10,02,800/-, 25. 29255027, 25.06.25, Damper for WAP-7, 15 Set, ₹ 1,52,480/-, 26. 25253574, 26.06.25, High Capacity Side Buffer Assembly, 128 Nos., ₹ 1,13,840/-, 27. 17251136, 02.07.25, Element Engine Air Filter (Disposable Bag Type), 3561 Nos., ₹ 8,90,180/-, 28. 25251318, 10.07.25, Set of spares of overhauling of suspension tube etc. 441 Set, ₹ 6,78,030/-, 29. 25253405, 11.07.25, Elastic Ring etc. 1039 Nos. ₹ 8,49,630/-, 30. 29245018B, 18.07.25, BHSL propulsion system of 3 Phase Locomotive, 14 Nos., ₹ 2,39,450/-, 31. 38253342A, 26.06.25, Coupler body with Shank Wear Plate for Up-graded HTCB, 9840 Nos., ₹ 20,00,000/-, 32. 38253895, 14.07.25, Fabricated Hand Brake Wheel (Side Operated) for BOXN Wagon, 5080 Nos., ₹ 1,24,080/-, 33. 38253340A, 29.08.25, Yoke for up-graded HT CBC, 2740 Nos., ₹ 15,92,670/-, 34. 60255186, 23.06.25, Manufacturing and Supply of CMS Crossing for BG 60 Kg (UIC) on PSC Sleepers 1 in 12 etc. 205 Set, ₹ 10,01,470/-, 35. 60255093B, 23.06.25, Manufacture and Supply of Prestressed Mono Block concrete sleepers etc. 940 Set, ₹ 50,00,000/-, 36. 50253018, 16.07.25, Supply of 2 MB Programmable Primary Digital Drop Inserted Multiplexer complete with all accessories etc., 30 Set, ₹ 1,05,620/-, Interested tenderers may visit website www.irops.gov.in for full details/description/ specification of the tenders and submit their bids online. In no case manual tenders for these items will be accepted. N.B.: Prospective Bidders may regularly visit www.irops.gov.in to participate in all other tenders & any Corrigendum published thereafter.

(PR-215)

Principal Chief Materials Manager/Garden Reach

PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PVT LTD

55-56, 5th Floor Free Press House Nariman Point, Mumbai - 400021 Tel: 022-61884700

Email: sys@pegasus-arc.com URL: www.pegasus-arc.com

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION SALE

Sale of Immovable Property under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/Co-borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) that the below described secured assets being immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, Pegasus Assets Reconstruction Private Limited acting in its capacity as Trustee of Pegasus Group Thirty-Five Trust -2 (Pegasus), having been assigned the debts of the below mentioned borrower along with underlying securities interest by Dombivli Sahakari Bank Ltd. (DNS) vide Assignment Agreement dated 31/12/2020 under the provisions of SARFAESI Act, 2002 are being sold under the provision of SARFAESI Act and Rule thereunder on "As is where is" "As is what is" and "Whatever there is" as basis. The Authorized officer of Pegasus has taken physical possession of the below described secured assets being immovable property on 22.12.2022 under the provision of SARFAESI Act and Rules thereunder.

The details of the auction are as follows:

Name of the Borrower(S)/Guarantor(S):	1. Unitech Carports Pvt Ltd (Borrower) 2. Mr. Uday Achyut Kulkarni (Guarantor) 3. Mr. Dhananjay Uday Kulkarni (Guarantor) 4. Mrs. Shalaka Dhananjay Kulkarni (Guarantor) 5. Mr. Girish Vajinath Vaidya (Guarantor) 6. M/s De Sirman Carports Pvt Ltd. (Corporate Guarantor)
Outstanding Dues for which the secured assets are being sold:	Rs. 17,72,58,569/- (Rupees Seventeen Crore Seventy Two Lakhs Fifty-Eight Thousand Five hundred and Sixty Nine Only) as on 13/05/25, plus further interest w.e.f. 14/05/25 at the contractual rate and costs, charges and expenses thereon till the payment and realization.
Details of Secured Assets being sold:	Industrial Land and building situated at Plot No. 129 admeasuring 0-2092 Hectare i.e. 2092 Sq. Mtrs. bearing Khassra No. 1222 min & Khata No. 362 (according to the Khatauni 1411 fall to 1416 fall) in Phase II of Nand Nagar Industrial Estate at Village Mahuakheda Ganj, Tehsil Kashipur, District Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Owned by Unitech Carports Pvt Ltd. Bounded as: East: 80' wide road, West: Plot No. 127 & 128, North: 80' wide Road, South: Plot No. 130
CERSAI ID	Security ID -400001530589, Asset Id -200001529376
Reserve Price below which secured assets will not be sold (in Rs.)	Rs. 1,90,50,000/- (Rs. One Crore Ninety Lakhs Fifty Thousand Only)
Earned Money Deposit (10% of Reserve Price)	Rs. 19,05,000/- (Rs. Nineteen Lakhs Five Thousand Only)
Claims, if any, which have been put forward against the property and any other dues known to Secured creditor and Value.	Not Known
Inspection of Property	On 13/06/25 between 11.00 a.m. to 2.00 p.m.
Contact Person and Phone No.	Mr. Ramakant Pandey (Authorized Officer) Mobile: 9087788888. Mr. Ramesh Giri Mobile: 9643468804
Last date for submission of Bid:	19/06/25 between 11.00 a.m. to 4.00 p.m.
Time and Venue of Bid Opening	E-Auction/Bidding through website (https://sarfaesi.auction-tiger.net) on 20/06/2025 from 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

This publication is 15 days' notice to the aforementioned borrowers/guarantors under rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

For detailed terms & conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor website i.e. <http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html>, or website <https://sarfaesi.auctiontiger.net> or contact service provider M/s. E Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Bidder Support : 079-68136805/68136837 Mo.: +919978591888, 8000023297 Email : ramprasad@auctiontiger.net and support@auctiontiger.net

Place: Kashipur, Uttarakhand

Date: 28/05/2025

AUTHORISED OFFICER

Pegasus Assets Reconstruction Private Limited

(Pegasus Group Thirty-Five Trust -2)

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Regd. Office: 4883-4884, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006 Phone No.: 011-23953204

Email: amarnath01finance@gmail.com, CIN No. L74899DL1988PLC020194

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31st March, 2025

(Rs. In Lakhs) except EPS

Sl. No	Particulars	Quarter Ended		Financial Year ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations (net)	126.54	148.04	91.65	557.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	90.60	112.58	55.96	414.49
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	90.60	112.58	55.96	414.49
4	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	58.43	86.99	31.92	308.01
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	58.43	86.99	31.92	308.01
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	58.43	86.99	31.92	308.01
7	Equity Share Capital	99.80	99.80	99.80	99.80
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			6,605.84	6,297.83
9	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)				
	- Basic (not annualized)*	0.59	0.87	0.32	3.09
	- Diluted (not annualized)*	0.59	0.87	0.32	3.09

NOTES :

1 The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 29, 2025.

2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on company's website www.sriamarnathfinance.in.

For Sri Amarnath Finance Limited

Sd/-

Rakesh Kapoor

Managing Director

DIN:00216016

Date: 29.05.2025

Place: Delhi

DURGESH MERCHANTS LIMITED

Registered Office: D-251, Ground Floor, Defence Colony, New Delhi- 110024

CIN: L65923DL1984PLC248322, E-mail id: durgeshmerchants@gmail.com; Ph: 011-68888824; Website: <https://www.durgeshmerchantsltd.com/>

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2025

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2024
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	69.56	47.50	107.21	157.31
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	53.46	15.68	47.88	91.41
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	53.46	15.68	47.88	91.41
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.12	5.97	24.54	70.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	134.91	22.94	129.33	81.00
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share)	496.63	280.25	496.63	280.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	406.05	112.91	406.05	112.91
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):				
	Basic:	0.61	0.21	0.50	2.51
	Diluted:	0.61	0.21	0.50	2.51

Notes:-

1. The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind AS-108 is not required.

2. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 29th May 2025. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.

3. Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.

4. Indian Accounting Standards are applicable to the Company w.e.f 1st April 2019.

On behalf of Board

For Durgesh Merchants Limited

Sd/-

Rohit Ahuja

(Managing Director)

DIN:07859817

Place: New Delhi

Date: 29.05.2025

EMA INDIA LIMITED

CIN : L27201UP1971PLC003408

Regd. Office: C-37 Kanpur Industrial Area, Udyog Nagar, Kanpur - Uttar Pradesh

Website: www.eitindia.info, E-mail: ema@india.cs@gmail.com

Extracts of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

(Rs. in Lakhs, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	0.00	0.04	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(22.61)	(63.98)	(13.16)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.40)	(61.77)	(13.16)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(20.40)	(61.77)	(13.16)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(20.40)	(61.77)	(13.16)
6	Equity Share Capital	100.50	100.50	100.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)*		(275.20)	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	(2.03)	(6.15)	(1.31)
	2. Diluted:	(2.03)	(6.15)	(1.31)

Note-(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on company's website www.eitindia.info.

(b) The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 29th May, 2025. (c) The above financial results of the Company for the year ended March 31, 2025 have been subjected to audit by the Statutory Auditors of the Company and the auditors have issued an unqualified audit report. (d) Having considered the resultless talks with big business houses for exploring new business as well as continuous losses in the company coupled with negative net worth, the management has determined that the Company has ceased to be a going concern. Accordingly, assets below market value have been impaired to keep on realisable value as determined by the management and taken on record by board of directors on meeting of board of director dated 6th of February 2024.

For EMA India Limited

Sd/-

Ranjana Bhargava

(Whole Time Director)

Place : Kanpur

Date : 29/05/2025

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED

CIN: L72300DL1977PLC008782

Regd. Off.: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019; Tel: 011-26444812

E-mail: idsmcomplianceofficer@gmail.com, Website: www.idmlimited.in

NOTICE TO MEMBERS AND DETAILS OF E-VOTING FOR POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given in accordance with the provisions of Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Secretariat Standard-2 on General Meetings (the "SS-2", including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, circulars / guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), for holding general meetings / conducting postal ballot process through voting by electronic means ("remote e-voting") bearing nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 31/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022, 09/2023 dated 25th September, 2023 and 9/2024 dated September 19, 2024 (collectively, the "MCA Circulars") and any other applicable laws and regulations, International Data Management Limited (the "Company") is seeking approval of Members by way of Postal Ballot via remote e-voting with respect to the following special businesses as mentioned in the Postal Ballot Notice sent through e-mail on 29th May, 2025, to all the Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, National Securities Depository Limited (hereinafter referred to as "NSDL") and Central Depository Services (India) Limited (the "CDSL") as on Friday, 23rd May, 2025 (the "Cut-off Date"):

Sl. No.	Particulars	Resolution
1.	Appointment of Mr. Vikram Shastri (DIN 09633011) as Non-Executive Independent Director	Special
2.	Appointment of Ms. Pamela Srivastava (DIN 10719897) as Non-Executive Independent Director	Special
3.	Re-appointment of Mr. Sashi Sekhar Mishra, as Manager of the Company	Ordinary

The Postal Ballot Notice can be accessed on the website of the Company at <https://www.idmlimited.in> website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited, on which the equity shares of the Company are listed at <https://www.bseindia.com> and website of CDSL (the agency appointed for providing the remote e-Voting facility to the Members to electronically cast their vote) at <https://www.evotingindia.com>.

The Company has emailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement to the Members of the Company who have registered their email addresses with the Company/ Depository/ Depository Participants as on Cut-off Date. The voting rights of the Members shall be in proportion to their equity shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date. A person who is not a Member on the Cut-off date shall treat this Postal Ballot Notice for information purposes only.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

In compliance with the provisions

